



भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 08.10.2015

विषय: बीबीएमबी में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन



चण्डीगढ़ : बीबीएमबी सचिवालय में 1 सितम्बर, 2015 से 15 सितम्बर, 2015 तक "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। श्री एस. के शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने 07.10.2015 सचिवालय, चण्डीगढ़ में आयोजित राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी काम-काज में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



पखवाड़े के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बनाने तथा उसे कायम रखने के लिए पाँच हिंदी प्रतियोगिताएं, नामतः हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता तथा स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्मिकों को क्रमशः 3,000/- रुपये, 2,500/- रुपये तथा 2,000/- रुपये की राशि के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक सरकारी काम-काज हिंदी में करने वाले 36 कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री एस. के शर्मा ने सर्वप्रथम हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिकों के साथ-साथ सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और बताया कि "हिंदी दिवस" के अवसर पर 14 सितम्बर को बीबीएमबी को भारत सरकार द्वारा

संचालित राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सम्मान के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि सभी कार्मिक आगे प्रथम पुरस्कार के लक्ष्य के साथ राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में और जोर शोर से लग जाएंगे।